



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1266]  
No. 1266]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 17, 2007/आश्विन 25, 1929  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2007/ASVINA 25, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1772(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1024(अ), तारीख 26 जून, 2007 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी द्वारा तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के 67/800 कि.मी. से 124/894 कि.मी. (तिरुचिरापल्ली-विरालीमलाई-मदुरै सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 24 जुलाई, 2007 को “दि हिन्दू” और “डेली थांथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के 67/800 कि.मि.से 124/894 कि.मि. तक  
(तिरुचिरापल्ली - विसलीमलई - मदुरै सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना  
रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मदुरै	मेल्लयूर	(1) नवीनीपट्टी	72/1ए1	निजी	नम	230	पांडी पुत्र सोलै
				72/1ए4	निजी	नम	261	वल्लाक्कन पुत्र आंडी
				72/5बी	निजी	नम	190	एम. सेल्वी
				72/8बी	निजी	नम	119	जेयपाडियम्माल पत्नी रागवन
				72/10बी	निजी	नम	143	सुब्रमणियन पुत्र पोन्नुचामी
				75/1ए2	निजी	शुष्क	1045	दुरैचामी पुत्र वीरप्पकोन
				75/1बी2	निजी	शुष्क	430	सदासिवम पुत्र सुब्रमणी ऐयर
				75/1सी2	निजी	शुष्क	240	दुरैचामी पुत्र वीरप्पकोन
				75/1डी	निजी	शुष्क	26	सदासिवम पुत्र सुब्रमणी ऐयर
				79/1बी	निजी	शुष्क	244	पोन्नाम्माल पत्नी मुत्तुकोन-1 गोपाल पुत्र मुत्तुकोन-2 मलर जोती पुत्री मुत्तुकोन-3 अरुन्तती पुत्री मुत्तुकोन-4 सरवणन पुत्र मुत्तुकोन-5
				79/2बी	निजी	शुष्क	405	सुब्बैया पुत्र वीरणकोनार-1 चन्द्रन पुत्र सुब्बैया-2 तमिलन पुत्र सुब्बैया-3 रोकर पुत्र सुब्बैया-4 सुमा पुत्री सुब्बैया-5 सुमती पुत्री सुब्बैया-6 मैनर नित्या पुत्री मोहन-7 मैनर कतिरवन पुत्र मोहन-8 गार्डियन पिता मोहन
				88/5ए	निजी	नम	330	सकुन्तला पुत्री ऐयाचामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				88/7डी1	निजी	नम	141	पेरियन पुत्र पाम्पयन
				88/9ए	निजी	नम	28	नौडिचामी पुत्र मोडीयम्बलम
				118/1ए	निजी	नम	82	सत्यबामा नामक मीनाक्षी पत्नी कासी नामक सेवुकन चेटियार
				118/4डी2ए	निजी	नम	87	करुप्पणन पुत्र अलगुकोन
				118/13ए	निजी	नम	50	मूकायी पत्नी चिट्टुकोन-1 चिट्टुकोन पुत्र करुप्पकोन-2
				118/14ए	निजी	नम	75	मीनाक्षी आची पत्नी सेवुकन चेटियार-1 चेल्लम पुत्री सेवुकन चेटियार-2 ज्ञानसुन्दरी पुत्री सेवुकन चेटियार-3
				118/16ए	निजी	नम	63	नागरतिनम पत्नी गोपाल
				119/7ए	निजी	नम	105	वासुकी पत्नी वसन्तकुमार
				119/9डी1	निजी	नम	57	पांडी पुत्र पेरियसामी
				119/9ए2ए	निजी	नम	39	सुब्रमणियन पुत्र मुत्तुकरुप्पन
				161/3	निजी	नम	150	विजया पत्नी चिन्नयन
				74/3बी2	निजी	मनई	36	सुब्बैया पुत्र वीरणकोनार
				74/3सी2	निजी	मनई	133	दुरैसामी पुत्र वीरप्पकोनार
				74/3ए2	निजी	मनई	72	तमिलरसन पुत्र तिरुप्पती-1 सेल्वमणी पुत्र तिरुप्पती-2
				74/3डी2	निजी	मनई	137	तमिलरसन पुत्र तिरुप्पती-1 सेल्वमणी पुत्र तिरुप्पती-2
				695/1ए1बी	निजी	शुष्क	63	कुमरेसन पुत्र ओडैयन-1 मेहवाणन पुत्र कुमरेसन-2 ओडयतेवर पुत्र कुमरेसन-3
				695/1बी1बी	निजी	शुष्क	36	दुरैसामी पुत्र वीरप्पकोन
				695/1बी9बी	निजी	शुष्क	39	अमुता पत्नी ओयप्पन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				695/1बी25	निजी	शुष्क	220	आरम्भाल पत्नी मुत्तुरामलिंगम
				695/2जी2	निजी	शुष्क	541	नोडिचामी पुत्र वीरणन
				695/2एच2	निजी	शुष्क	248	महेन्द्रन पुत्र दुरैचामी-1 इद्रा पत्नी सेल्वराज-2
				695/3	निजी	शुष्क	42	रामु अम्भाल पत्नी पाडी
				695/4	निजी	शुष्क	38	पोन्नम्भाल पत्नी मुत्तुकोन-1 गोपाल पुत्र मुत्तुकोन-2
								मलर जोती पुत्री मुत्तुकोन-3 अरुन्तती पुत्री मुत्तुकोन-4 सरदणन पुत्र मुत्तुकोन-5
				695/5	निजी	शुष्क	70	राजामणी पुत्र मरुतु-1 विजया पत्नी मरुतुपाडी कण्णन-2 मुत्तुकुमार पुत्र मरुतुपाडी कण्णन-3 मैनर इलक्किया गाडियन मों विजया-4 अब्बास पुत्र अब्दुल रहीम-5 सुलोसना पत्नी रोदरपाडी-6
				695/6	निजी	शुष्क	63	दुरैचामी पुत्र वीरणन-1 मरुमु पुत्र पेरिययिचान 2 मरुतु पुत्र चिन्न अरिययिचान-3 मरुतुपाडी पुत्र मुत्तुकुरुप्पणन-4
				695/8	निजी	शुष्क	167	आरम्भाल पत्नी मुत्तुरामलिंगम
			(2) थुम्बईपट्टी	518/1ए2	निजी	नम	135	कृन्धती पत्नी दर्मीलिंगम
				518/4ए	निजी	नम	272	शम्भुहम पुत्र शसुकोनार-1 तिरुसेल्वन पुत्र शम्भुगम-2 मल्लिवापन पुत्र शसुकोनार-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				517/2ए1	निजी	शुष्क	168	शन्मुहम पुत्र रासुकोनार-1 तिरुसेल्वन पुत्र शन्मुगम-2 मतिवाणन पुत्र रासुकोनार-3
				280/1ए	निजी	नम	99	पेरियकरुप्पन पुत्र पेरियकरुप्पन
				280/3ए1	निजी	नम	29	ऐयावु पुत्र वेलपिरियन
				280/3बी1	निजी	नम	52	चिन्नकरुप्पन पुत्र पेरियकरुप्पन
				280/3सी1	निजी	नम	6	चिन्नकरुप्पन पुत्र पेरियकरुप्पन
				340/3बी	निजी	नम	240	तुम्बैपट्टी ग्राम उत्तुनगरम मातरई पल्लिवासल
				88/1बी2	निजी	नम	38	ऐयनकालै पुत्र वेल्लैयन-1 ओडुंकन पुत्र वेलयन-2
				88/1ए2	निजी	नम	105	राजेंद्रन पुत्र सुब्बैया
				88/5ए2बी	निजी	शुष्क	44	करुप्पैया पुत्र मुत्तु
				88/5ए1बी	निजी	शुष्क	23	माणिकम पुत्र नाचान
				88/11बी	निजी	शुष्क	16	माणिकम पुत्र नाचान

[फा. सं. 11015/8/2001/डीजीएम/भू. अर्जन/त्रिची]

प्रभाकर, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2007

**S.O. 1772(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number **S.O.1024(E)**, dated the **26<sup>th</sup> June, 2007**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.45B on the stretch of land from **Km.67/800 to Km.124/894 (Tiruchirappalli – Viralmalai – Madurai Section)** in District Madurai in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu", and "Daily Thanthi", both dated the "24<sup>th</sup> July, 2007"; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.67/800 to Km.124/894 (Tiruchirappalli - Viralimalai - Madurai Section) of National Highway No.45B in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madurai	Melur	(1) Navinipatti	72/1A1	Private	Wet	230	Pandi, S/o. Solai
				72/1A4	Private	Wet	261	Vallakkan, S/o. Andi.
				72/5B	Private	Wet	190	M. Selvi.
				72/8B	Private	Wet	119	Jeyapandiammal W/o. Ragavan
				72/10B	Private	Wet	143	Subramanian S/o. Ponnuchamy.
				75/1A2	Private	Dry	1045	Duraichamy S/o. Veerappakone.
				75/1B2	Private	Dry	430	Sadasivam S/o. Subramani Iyer.
				75/1C2	Private	Dry	240	Duraichamy S/o. Veerappakone.
				75/1D	Private	Dry	26	Sadasivam S/o. Subramani Iyer.
				79/1B	Private	Dry	244	Ponnammal W/o. Muthukone - 1, Gopal S/o. Muthukone - 2, Ma'ar Jothi D/o. Muthukone - 3, Arunthathi D/o. Muthukone - 4, Saravanan S/o. Muthukone - 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				79/2B	Private	Dry	405	Subbiah S/o. Veeranakonar -1, Chandran S/o. Subbiah -2, Thamilan S/o. Subbiah -3, Sekar S/o. Subbiah -4, Subha D/o. Subbiah -5, Sumathi D/o. Subbiah -6, Minor Nithya D/o Mohan-7, Minor Kathiravan S/o. Mohan-8, Guardian Father Mohan,
				88/5A	Private	Wet	330	Sakunthala D/o. Ayyachamy,
				88/7D1	Private	Wet	141	Periyan S/o. Pampayan
				88/9A	Private	Wet	28	Nondichamy S/o. Mondiambalam
				118/1A	Private	Wet	82	Sathyabama @ Meenakshi W/o. Kasi @ Sevukan chettiyar.
				118/4D2A	Private	Wet	87	Karuppanan S/o. Alagukone
				118/13A	Private	Wet	50	Mookayee W/o. Chittukone-1 Chittukone S/o. Karuppakone -2
				118/14A	Private	Wet	75	Meenakshi Achi W/o Sevukan Chettiyar -1, Chellam D/o. Sevukanchettiyar -2, Gnanaundari D/o. Sevukanchettiyar -3.
				118/16A	Private	Wet	63	Nagarathinam W/o. Gopal
				119/7A	Private	Wet	105	Vasuki W/o. Vasanthakumar
				119/9D1	Private	Wet	57	Pandi S/o. Periasamy
				119/9A2A	Private	Wet	39	Subramanian S/o. Muthukaruppan
				161/3	Private	Wet	150	Vijaya W/o. Chinnayan
				74/3B2	Private	Manai	36	Subbiah S/o. Veeranakonar.
				74/3C2	Private	Manai	133	Duraisamy S/o. Veerappakonar.
				74/3A2	Private	Manai	72	Thamilarasan S/o. Thiruppathi -1, Selvamani S/o. Thiruppathi-2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				74/3D2	Private	Manai	137	Thamilarasan S/o. Thiruppathi -1, Selvamani S/o. Thiruppathi-2.
				695/1A1B	Private	Dry	63	Kumaresan S/o. Odayan -1, Mehavannan S/o. Kumaresan -2, Odayathevar S/o. Kumaresan -3
				695/1B1B	Private	Dry	36	Duraisamy S/o. Veerappakone.
				695/1B9B	Private	Dry	39	Amutha W/o. Oyyappan.
				695/1B25	Private	Dry	220	Aarammal W/o. Muthuramalingam,
				695/2G2	Private	Dry	541	Nondichamy S/o Veeranan
				695/2H2	Private	Dry	246	Mahendran S/o. Duraichamy -1, Indra W/o. Selavaraj -2.
				695/3	Private	Dry	42	Ramuammal W/o. Pandi.
				695/4	Private	Dry	38	Ponnammai W/o. Muthukone -1, Gopal S/o. Muthukone -2, Malarjothi D/o. Muthukone -3, Arunthathi D/o Muthukone -4, Saravanan S/o. Muthukone -5.
				695/5	Private	Dry	70	Rajamani S/o Maruthu -1, Vijaya W/o. Maruthupandi kannan -2, Muthukumar S/o. Maruthupandi kannan -3, Minor Ilakkiya Guardian Mother Vijaya -4, Abbas S/o. Abdul Rahim -5, Surosana W/o. Soundarapandi -6.
				695/6	Private	Dry	63	Duraisamy S/o. Veerappan -1, Maruthu S/o. Periapitchan -2, Maruthu



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								S/o.Chinna ariyampitchan -3, Maruthupandi S/o. Muthukaruppan-4
				695/8	Private	Dry	167	Aarammai W/o.Muthuramalingam
			(2)Thumbalpatti	518/1A2	Private	Wet	135	Kunavathi W/o. Dharmalingam.
				518/4A	Private	Wet	272	Shanmugam -1 S/o. Rasukonar, Thiruselvan -2 S/o. Shanmugam, Mathivanan -3 S/o. Rasukonar.
				517/2A1	Private	Dry	168	Shanmugam -1 S/o. Rasukonar, Thiruselvan -2 S/o. Shanmugam, Mathivanan -3 S/o. Rasukonar.
				280/1A	Private	Wet	99	Periakaruppan S/o.Periakaruppan.
				280/3A1	Private	Wet	29	Ayyavu S/o. Vellapiriyar.
				280/3B1	Private	Wet	52	Chinnakaruppan S/o. Periakaruppan.
				280/3C1	Private	Wet	6	Chinnakaruppan S/o. Periakaruppan.
				340/3B	Private	Wet	240	Thumbaipatti Village uthunagaram Mathrayee Pallivasal.
				88/1B2	Private	Wet	38	Ayyangkalai S/o. Vellayan.-1, Odunkan S/o. Vellayan -2.
				88/1A2	Private	Wet	105	Rajendran S/o. Subbiah.
				88/5A2B	Private	Dry	44	Karuppiyah S/o.Muthu.
				88/5A1B	Private	Dry	23	Manickam S/o.Nachan.
				88/11B	Private	Dry	16	Manickam S/o.Nachan.

[F. No. 11015/8/2001/DGM/LAQ/Trichy]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

42616E/07-3